

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 331]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 1977/श्रावण 3, 1899

No 331]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 1977/SRAVANA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RESOLUTION

New Delhi, the 25th July 1977

S.O. 585(E) —Shri Neelam Sanjiva Reddy having been elected as President of the Republic of India takes his seat as President of India under a salute of 21 guns.

ORDER

Ordered that the following proclamation be published in the Gazette of India:—

PROCLAMATION

It is hereby notified that Shri Neelam Sanjiva Reddy having been elected as the President of India, has entered upon the said Office.

ORDER

Ordered that the Proclamation be sent for information to the Defence Forces of the Union

Ordered that a copy of the Proclamation and copies of foregoing orders be sent for information to the

Ministry of

Agriculture and Irrigation
Chemicals and Fertilizers
Civil Supplies and Cooperation
Commerce
Communications
Defence
Education and Social Welfare
Energy
External Affairs
Finance
Health and Family Welfare
Home Affairs
Industry
Information and Broadcasting
Labour
Law, Justice and Company Affairs
Petroleum
Planning
Railways
Shipping and Transport
Steel and Mines
Supply and Rehabilitation
Tourism and Civil Aviation
Works and Housing

Department of Atomic Energy
Department of Culture
Department of Electronics
Department of Parliamentary Affairs
Department of Revenue
Department of Science and Technology
Department of Space
Cabinet Secretariat
President's Secretariat
Vice President's Secretariat
Prime Minister's Office
Comptroller and Auditor General of India
Election Commission of India
Lok Sabha Secretariat
Rajya Sabha Secretariat
Supreme Court of India
Union Public Service Commission

whence such orders as may be necessary will be issued forthwith.

India by Shri Neelam Sanjiva Reddy be sent to the Governments of the States and Administrators of Union Territories noted below —

The Government of	{	Andhra Pradesh
		Assam
		Bihar
		Gujarat
		Haryana
		Himachal Pradesh
		Jammu and Kashmir
		Karnataka
		Kerala
		Madhya Pradesh
		Maharashtra
		Manipur
		Meghalaya
		Nagaland
		Orissa
		Punjab
		Rajasthan
		Sikkim
		Tamil Nadu
The Lt Governor of	{	Tripura
		Uttar Pradesh
		West Bengal
The Chief Commissioner of	{	Arunachal Pradesh
		Delhi
		Goa, Daman and Diu
		Mizoram
The Administrator of	{	Pondicherry
		Andaman and Nicobar
		Chandigarh
	{	Dadra and Nagar Haveli
		Lakshadweep

[No. 2/3/77-Public]

T C A SRINIVASAVARADAN, Secy.

गृह मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1977

का० प्र० 585(प्र).—भारत गणतन्त्र के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात् श्री नीलम संजीव रेड्डी 21 तोपों की सलामी के साथ, भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित उद्घोषणा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये :—

उद्घोषणा

एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि श्री नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात् उक्त पद पर आसीन हो गये हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उद्घोषणा की एक प्रति तथा पूर्वोक्त-आदेशों की प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जायें जहां से यथोचित आदेश तुरन्त जारी किये जायें :—

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय

संचार मंत्रालय

रक्षा मंत्रालय

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

ऊर्जा मंत्रालय

विदेश मंत्रालय

वित्त मंत्रालय

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय

गृह मंत्रालय

उद्योग मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

श्रम मंत्रालय

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

पेट्रोलियम मंत्रालय

योजना मंत्रालय

रेल मंत्रालय

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

इस्पात और खान मंत्रालय

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

निर्माण और आवास मंत्रालय

परमाणु ऊर्जा विभाग

संस्कृति विभाग

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

संसदीय कार्य विभाग

राजस्व विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
 अन्तरिक्ष विभाग
 मंत्रिमंडल सचिवालय
 राष्ट्रपति सचिवालय
 उप-राष्ट्रपति सचिवालय
 प्रधान मंत्री कार्यालय
 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
 भारत का निर्वाचन आयोग
 लोक सभा सचिवालय
 राज्य सभा सचिवालय
 भारत का सर्वोच्च न्यायालय
 संघ लोक सेवा आयोग

आदेश दिया जाता है कि श्री नीलम संजीव रेड्डी द्वारा भारत सरकार के राष्ट्रपति के पद ग्रहण किये जाने की सूचना निम्नांकित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाये :—

आन्ध्र प्रदेश सरकार
 असम सरकार
 बिहार सरकार
 गुजरात सरकार
 हरियाणा सरकार
 हिमाचल प्रदेश सरकार
 जम्मू और काश्मीर सरकार
 कर्नाटक सरकार
 केरल सरकार
 मध्य प्रदेश सरकार
 महाराष्ट्र सरकार
 मणिपुर सरकार
 मेघालय सरकार
 नागालैंड सरकार
 उड़ीसा सरकार
 पंजाब सरकार
 राजस्थान सरकार

सिक्किम सरकार

तमिलनाडु सरकार

त्रिपुरा सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार

उपराज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश

उपराज्यपाल, दिल्ली

उपराज्यपाल, गोआ, दमन और दीव

उपराज्यपाल, मिजोरम

उपराज्यपाल, पाण्डिचेरी

मुख्यायुक्त, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह ।

मुख्यायुक्त चण्डीगढ़

प्रशासक दादरा और नगर हवेली

प्रशासक लक्षद्वीप

[सं० 2/3/77-पब्लिक]

टी० सी० ए० श्रीनिकासवरदन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977